



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

सांख्यिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019

Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8549 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Sambhar has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Sambhar. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल सांभर लेक, जयपुर

प्रपत्र "क"

क्र.सं.	वार्ड सं.	नवगठित वार्डों के सीमांकन का विवरण
1	1	खटीकों की हथाई किशन जी सुनार से शुरू होकर के खटीकों की हथाई से बाई साईड की आबादी लेते हुए पश्चिम दिशा में चलकर दायमा का मकान लेते हुए ओमप्रकाश चांवला का मकान लेते हुए रिंग डेम के सहारे चलते हुए राकेश परेवा, शनिचर का नाला लियाकत का मकान शनिदेव जी का मन्दिर, नवलसोनी का मकान, कमला किनर का मकान से पूर्व में मूड़कर सराय स्कूल के पास से चलते हुए कमरुदीन का मकान भंवर लाल साहु लुहारो के मोहल्ले की बाई साईड की आबादी लेते हुए दीलीप टांक आटा चक्की से लेकर ठठेरों की आबादी सम्मिलित करते हुए दो दरवाजे वाले की दुकान से किशन जी सुनार तक खटीकों की हथाई तक।
2	2	कुन्दन भार्गव की दुकान से चलकर शनिचर जी के नाले की बाई साईड की आबादी लेते हुए सिराजुदीन के मकान से रिंग डेम के सहारे चलते हुए ईश्वर लाल सांभरिया की दुकान से पूर्व में मुड़कर ओम जी कयाल का मकान लेतु हुए पूर्व दिशा में चलते हुए बाई साईड की आबादी सम्मिलित करते हुए रामजी पंडित का

		मकान पुरुषोत्तम जी क्याल का मकान लेते हुए पिस्ता गोयल के मकान से मुस्ताक ताजिया वाले का मकान सम्मिलित करते हुए दक्षिण दिशा में चलकर सुभाष मोदी से पूर्व में मुड़कर बाबू खलिफा का मकान शमीम जी वकील का मकान से सराफत उल्ला के मकान तक से मुड़कर खारडा मोहल्ला से एवन टेलर से मनोज गोयल को लेते हुए हमालो की गली की आबादी सम्मिलित करते हुए ईसांफ के दुकान को सम्मिलित करते हुए बोदूराम प्रजापत की दुकान से उत्तर में मुड़कर चलते हुए गोला बाजार बाई साईड की आबादी लेते हुए जगदीश खज्जी की दुकानलेखुमल की दुकान से पश्चिम में मुड़कर मोहन पाण्डया की दुकान, जैन मन्दिर की दुकाने नटवर पानवाले की दुकान जैन मन्दिर पुरानी धानमण्डी कैलाश जी काला की दुकान पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक से उत्तर मुड़कर रामलीला रंगमंच सुत्तरखाना से पश्चिम मुड़कर लल्लू कुरैशी के मकान टांकसाहब का मकान भिश्तियों को लेते हुए टांक धर्मशाला से कुन्दन भार्गव की दुकान तक/
3	3	नया माताजी मन्दिर से शुरू होकर रिंग डेम नगरपालिका सीमा राजीव गांधी पाठशाला गंवारियों का मोहल्ला बाई साईड की आबादी को सम्मिलित करते हुए 22 गोदाम से दक्षिण मुड़कर रेल्वे क्वाटर के पीछे की आबादी को लेते हुए रेल्वे स्टेशन रोड से पूर्व में मुड़कर जेपी सैनी की दुकान नन्दू महाराज की दुकान से किंगस्वायर को सम्मिलित करते हुए सीधे चलकर किंगस्वायर मोड से उत्तर दिशा में मुड़कर पुरानी सोसायटी सुनारों की बगीची, किंग स्वायर आबादी को सम्मिलित करते हुए लक्ष्मीनारायण ठेकेदार के मकान से पश्चिम में मुड़कर चन्द्रकान्ता पूर्व पार्षद से टीकम चन्द रैगर से पश्चिम चलते हुए प्रभु रैगर के मकान से उत्तर दिशा में मुड़कर पीपली वाले बाबा रोड चलते हुए पांचू राम रैगर से रामचन्द्र रैगर चमारियों की बस्ती की आबादी को लेते हुए सोहन लाल गंवारिया रामजीलाल गंवारियां श्याम जी कनिष्ठ अभियन्ता से ओम जी प्रजापत से पश्चिम मुड़कर नये माताजी के मन्दिर तक/
4	4	रेल्वे स्टेशन से शुरू होकर उत्तर दिशा में रेल लाईन के पास बाये हाथ की आबादी लेते हुए दक्षिण-पश्चिम रोड चलते हुए माता जी रोड पर निकल कर नगरपालिका की काल्पनिक सीमा से चलकर भैरू खोडा साल्ट फाटक से वापस मुड़कर नगर पालिका की सीमा के सहारे-सहारे नरेना रोड पर आकर उत्तर दिशा को घुमकर रेल लाईन फाटक क्रोस कर आईटीआई क्रब्रिस्तान हेरीटेज बंगले को लेते हुए चुंगी नाका नम्बर दो साल्ट फाटक क्रोस कर पश्चिम दिशा में मुड़कर साल्ट बीस क्वाटर लेते हुए नीम रोड चलकर न्यू स्टेडीयम आदर्श विधालय गांधी छात्रावास की व पीछे की आबादी को सम्मिलित करते हुए ठोलिया का मकान शाकम्भर स्कूल के पीछे की इन्द्रा कॉलोनी साल्ट क्वाटर ज्ञान शिक्षा निकेतन विधालय गोपाल गौवशाला मेहरा टी-स्टाल से रेल्वे स्टेशन तक/
5	5	नीम रोड के नाके पर अनुप जोहरी के मकान से शुरू होकर उत्तर दिशा में चलते हुए बाये हाथ की आबादी सम्मिलित करते हुए खींची का मकान एचआर परेवा का मकान शिव वाटिका व रैगरों की बगीची से होते हुए चौहान ऑटों से जब्बार के

		मकान से आर्य समाज को सम्मिलित कर पश्चिम में मुड़कर अमरचन्द व रघूनाथ रैगर के मकान से श्री किशन के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर मांगीलाल रैगर के मकान से पश्चिम की ओर लक्ष्मण रैगर के मकान से हनुमान व सुण्डा के मकान से बाये हाथ की आबादी लेते हुए रैगर समाज की बगीची से पश्चिम में बोद्धाराम व ओमप्रकाश के मकान को सम्मिलित करते हुए दक्षिण में मुड़कर बशीलाल सकरवाल के मकान से बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पूर्व में मुड़कर नानकराम के मकान को लेते हुए झूंगाराम खटिक के मकान से बाये मुड़कर कालू राम वर्मा व रामचन्द्र खटिक के मकान को सम्मिलित करते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए नीमरोड अनुप जोहरी के मकान तक ।
6	6	सिनेमा चौक में पुसाराम प्रजापति की दुकान से ईश्वर लाल सांभरिया का मकान टीकम चन्द जी खटीक बाये साईड की आबादी लेते हुए दक्षिण दिशा में चलकर नोरती देवी का मकान दीनदयाल की दुकान से चलकर छीतर मेट से दक्षिण में मुड़कर नारायण रैगर के मकान से पीपली बाबा रोड से कैलाश रैगर के मकान से पूर्व की तरफ मुड़कर कन्हैयालाल सकरवाल के मकान से बाये हाथ की आबादी को लेते हुए उत्तर दिशा में चलते हुए गोरु राम रैगर के मकान से तेजाजी चौक से पश्चिम से मुड़कर जगदीश रैगर का मकान से उत्तर की तरफ गुरुद्वारे को सम्मिलित करते हुए शंकर रैगर के मकान से बाये हाथ की आबादी को लेते हुए भूरा खान के मकान से बफाती के मकान से बाये तरफ की आबादी को लेते हुए पूर्व में मुड़कर मकबूल बेग के मकान से कल्लू बेग के मकान से पश्चिम की ओर मुड़कर सत्यनारायण के मन्दिर से नाथूलाल क्याल के मकान से जगदीश प्रजापति के मकान तक।
7	7	धन्नाराम रैगर के मकान से शुरू होकर पश्चिम दिशा में मुड़कर अब्दूल हमीद टेलर के मकान को सम्मिलित करते हुए उत्तर दिशा में मुड़कर मदन लाल परेवा के मकान से नवल किशोर गोयल के मकान से पश्चिम में मोहरी लाल जी के मकान से बाये हाथ की आबादी को सम्मिलित करते हुए अमरचन्द टांक के मकान से दक्षिण में मुड़कर यासीन खां के मकान से बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गफकार खान के मकान से पश्चिम की ओर मुड़कर करीम बक्स के मकान से बाये हाथ की आबादी सम्मिलित कर सलीम के मकान से पूर्व में मुड़कर नूरमोहम्मद के मकान से बाये हाथ की आबादी को लेते हुए हेमराज के मकान से पूर्व दिशा में चौथमल के मकान से बाये हाथ की आबादी को सम्मिलित कर भागचन्द्र रैगर के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर बाये हाथ की आबादी को सम्मिलित कर सेवा राम व रहिस खां के मकान तक।
8	8	न्यू पोस्ट ऑफिस इकराम टेलर की दुकान से शफी मोहम्मद के मकान से पश्चिम मुड़कर के बाबूलाल आचार्य के मकान से माणक क्याल के मकान से छोटी देवी रैगर व टेलर की दुकान से गांधी बस्ती के रास्ते से दक्षिण दिशा मुड़कर झूंगाराम सकरवाल के मकान से दक्षिण में मुड़कर बाये हाथ की आबादी सम्मिलित करते हुए सुखाराम के मकान से बाये हाथ की आबादी को सम्मिलित करते हुए भंवर

		लाल के मकान से रामस्वरूप रैगर के मकान से बाये हाथ की आबादी को समिलित भोलूराम रैगर के मकान से न्यू पोस्ट ऑफिस तक।
9	9	टेलीफोन एक्सचेंज नीम रोड से शुरू होकर पूर्व दिशा में चलते हुए एलआईसी ऑफिस बीज गोदाम से बाए साइड की आबादी को लेते हुए अटल सेवा केन्द्र से बीओ ऑफिस से दीनदयाल प्याड से उत्तर की ओर मुड़कर पंचायत समिति से धन्ना लाल तेली की दुकान से नसिया की आबादी को समिलित करते हुए श्री जी विहार, सुल्तानी कुआं राजू माली की दुकान से चंदेल की दुकान से पश्चिम मुड़कर अशोक टेलर की दुकान से लक्ष्मण जी माली का मकान राधामोहन सोनी जी का मकान लाला कारीगर के मकान से रूपनारायणजी माली के मकान दुकान लेते हुए बाए हाथ की आबादी समिलित कर शोभित सक्सेना के मकान से उत्तर मुड़कर टीकम पार्षद का मकान मूलचन्द सैनी की आखली से फायर ऑफिस अब्दुल मजीद डीलर की दुकान से पश्चिम मुड़कर मुस्तकीम की दुकान गफार खाँ के मकान से न्यू लाईट टेलर की दुकान से दक्षिण मुड़कर जमनादास सिंधी के मकान से बाबूलाल जांगिड के मकान दुकान मिश्रा जी का मकान अम्बेडकर भवन दरबार स्कूल से टेलीफोन एक्सचेंज तक।
10	10	नया बस स्टेप्ड साल्ट फाटक गिरिराज अग्रवाल की दुकान से शुरू होकर पवन शर्मा की दुकान को लेते हुए इन्द्रजी जांगिड की दुकान से काजी जी के मकान तक पुराना जच्छा खाना फोरपोल से सत्येन्द्र अग्रवाल की दुकान से रामदेव जी के मन्दिर सदाशिव व्यास मार्ग से दक्षिण मुड़कर मदन सैनी की आखली डा. महेश शर्मा का मकान से ओम जी गढ़वाल की दुकान से कैलाश जादम के मकान से पूर्व मुड़कर हीरालाल कारपेन्टर की दुकान से भंवरलाल जी हलवाई का मकान से रामलाल जी बलाई के मकान से गंगाराम जी लखवानी के मकान से जगदीश कुमावत के मकान से गोपाल कुमावत की जाली की दुकान से भागचन्द जी नन्दकिशोर कुमावत की आखली से भंवरलाल जी जैन का मकान से धोबीघाट होते हुए वाइट गेट से उत्तर की ओर मुड़कर साल्ट लाईन के पास-पास चलकर मालियों की धर्मशाला काजी कुआं से साल्ट फाटक नावां रोड से य गिरिराज अग्रवाल की दुकान तक।
11	11	कारू सिंधी के मकान दुकान से शुरू होकर उत्तर दिशा में चलते हुए बाए साइड की आबादी को समिलित करते हुए भगवान साध का मकान से नेनूमल सिंधी के मकान से सत्संग भवन से प्रदीप सिंधी किराना की दुकान से पश्चिम की ओर मुड़कर प्रमोद काला का मकान से फीणी उधोग मकान से मातादीन पानवाले का मकान से पश्चिम में मुड़कर बाये साइड की आबादी को समिलित करते हुए भंवर टेलर की दुकान समिलित करते हुए गोरधन सिंधी की दुकान कसीदे वाले की दुकान जैन समाज की दुकान भैरू जी का मन्दिर गोपी चाट वाले की दुकान बाबू नाई की दुकान नारनोली मिष्ठान भण्डार छोटू जी छिपा द्वारका तेली बनवारी स्टेशनरी मोहरी लाल जी ईश्वर बालानी की दुकान अमित म्यूजिक सेन्टर गोरधन कपड़े वाले की दुकान गोपाल गेस वाले की दुकान टेपण कांच व तस्वीर वाले पूर्व

		में मुड़कर रवि नाई की दुकान इन्ड्र हरिजन का मकान आरोड़ा म्यूजिक सेन्टर पापुलर की दुकान से कालू सिंधी की दुकान तक।
12	12	पूर्वा टेलर की दुकान से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चेलानी की दुकान मकान धोबियों का चौक चेलानी का गैरेज धोबी समाज की दुकान आलम पुलिस वाले का मकान रमेश जी नाई का मकान रामनिवास तेली की दुकान अशोक धोबी की दुकान शंकर जी हलवाई की दुकान रतन अग्रवाल की दुकान बल्लू चाय वाले की दुकान बरड़ फीणी वाले की दुकान पप्पू सोनी की दुकान से दक्षिण मुड़कर पटवार भवन टॉउन हरि भवन बंसल जी का मकान बालकिशन सोनी का मकान व दुकान क्षत्रीय मेड भवन से पश्चिम चलकर उत्तर की ओर जयपुरिया हलवाई व सून्दर हलवाई से विष्णु जी पार्षद की दुकान नन्द लाल सैन की दुकान दीप जी की होटल नाथू जी बागड़ा का मकान लम्बी गली व जाल की आबादी को सम्मिलित करते हुए/ रामचन्द्र नारनोली की दुकान नम्बर 3 स्कूल सीताराम खाती का मकान खातीवाड़ की आबादी को सम्मिलित करते हुए पूर्वा टेलर की दुकान तक।
13	13	मूर्तिस्थल से शुरू होकर औंकार जी माली का मकान नेहरू पार्क नन्द दवाई वाले की दुकान, लक्ष्मी मेडिकल स्टोर अजमेरा S.T.D. दुकान प्रेमा जी हलवाई की दुकान सलावटों की मस्जिद से उत्तर में चलकर रमेश चन्द अग्रवाल का मकान से पटवां की गली में मुड़कर भंवरी देवी के मकान को सम्मिलित कर बाये हाथ की आबादी गीरजा शंकर का मकान दीनदयाल माली का मकान महेश शर्मा का मकान राजमल धोबी के मकान से मुड़कर गोरी शंकर टेलर का मकान स्मृति भवन जगदीश चंदेल मूल चन्द जी जैन मोहन मेठवानी शंकर लाल खटीक के मकान से सलवटों की मस्जिद से वापस मुड़कर काला मार्ग से बाये साईड की आबादी को लेते हुएवापस मुड़कर के शंकर टेलर की दुकान सोनी की दुकान गंगा राम जी दूध वाले की दुकान लेखुमल सीधी का मकान वर्धमान जी काला का मकान साध धर्मशाला दोलत साध का मकान प्रदीप साध का मकान फतुमल बीड़ी वाले का मकान मालचन्द बलाई का मकान से मूर्ति स्थल तक।
14	14	राजकीय अस्पताल से शुरू होकर पूर्व दिशा में श्याम जी सेठी के मकान से बाए साईड की आबादी को लेते हुए कृष्णा स्टेशनरी की दुकान से खटीक धर्मशाला से सॉल्ट फाटक नावां रोड सब्जियों की दुकानों रोडवेज बस-स्टेण्ड को लेते हुए मंजूर पंचर वाले की दुकान से बाए मुड़कर सीता सागर रोड बाबू थानेदार के मकान व दुकानों को लेते हुए कृष्ण वाटिका से मोहन लाल माली का मकान से पश्चिम दिशा में मुड़कर सारडा कुओं साल्ट फाटक प्रदीप पत्रकार के मकान को लेते हुए पारीक धर्मशाला से महावीर वाटिका के बाए हाथ की आबादी को सम्मिलित करते हुए त्रीभुवन जांगीड के मकान से मोहन खण्डेलवाल के मकान से कन्हैयालाल वर्मा के मकान से चलकर पश्चिम की ओर मुड़कर फुलचन्द जी सैनी के मकान से दक्षिण की तरफ महावीर जी पाटनी के मकान से आर्य समाज की दुकानों को लेते हुए राजकीय अस्पताल तक।

15	15	जोशी जी के मकान से शुरू होकर सॉल्ट रेल लाईन के पास चलते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए बाए साइड की आबादी को सम्मिलित कर भाँटों का कुआं से वाइट गेट दूदू रोड फाटक से नीचे उतरकर नरैना रोड पर सॉभर सॉल्ट की आबादी को सम्मेलित करते हुए डिप्टी ऑफिस से गुरुद्वारा से एक्सीडेण्ट रेल फाटक से नगरपालिका की काल्पनिक सीमा होते हुए तलाई वाले बालाजी के आगे चलकर नगरपालिका सीमा से चलकर बाए साईड के खेतों की आबादी को सम्मिलित कर किशन हवलदार की कोठी को लेते हुए फुलेरा रोड उत्तर दिशा चलते हुए कृषि फॉर्म के पीछे की शाकम्भरी कॉलोनी एवं सॉभर सॉल्ट की आबादी को सम्मिलित कर सॉल्ट हॉस्पिटल से नीचे उतरकर न्यायालय आवासों को सम्मिलित कर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस से आशुतोष मिष्ठान भण्डार से गिरधारी जांगिड आवास एवं दुकानों को लेते हुए बाएं हाथ की आबादी को सम्मिलित कर श्री कलेक्शन से परम शान्ति से जोशी जी के मकान तक।
16	16	जोधपुर मिष्ठान भण्डार फुलेरा रोड से शुरू होकर सुरेश मेडिकल की दुकान से बजरंग नाई की दुकान से बाए साईड की आबादी को सम्मेलित कर क्रब्रिस्तान से फुलेरा रोड चलते हुए शिव विहार कॉलोनी जानकी विहार कॉलोनी शाकम्भर कॉलोनी से छात्रावास से इरोलाव नगरपालिका की काल्पनिक सीमा से फुलेरा रोड से उत्तर दिशा मुड़कर इरोलाव बिरदा की ढाणी की सम्मिलित करते हुए नगरपालिका की काल्पनिक सीमा से होते हुए नावां रोड (भंवर लाल रैगर की कोठी) से पश्चिम की ओर मुड़कर बाए साईड की आबादी को सम्मिलित कर राजीव गांधी पाठशाला से गैस एजेन्सी से न्यू कोर्ट रोड चौराहे से गणेश हलवाई का मकान से विश्वकर्मा गैरेज से नया थाना से बंसल की दुकान को लेते हुए गुराडिया की दुकान नृसिंह टीबा रोड पंचमुखी बालाजी से शमशान से बाबूलाल आचार्य का मकान से जाजू सागर से बालाजी की होटल से जोधपुर मिष्ठान भण्डार तक।
17	17	नगरपालिका चुंगी नाका नं 03 से शुरू होकर नावां रोड चलते हुए गद्वानी की दुकानों को सम्मिलित करते हुए नायकों के दड़ों की आबादी को सम्मिलित करते हुए आशियना गेस्ट हाउस से नौपा फकीर की दुकान से जांदू कृषि फार्म से नावां रोड चलते हुए बाए साईड की आबादी सम्मिलित करते हुए सूरज कुमावत चाय की दुकान से पीरू जी की कोठी से संकटमोचन बालाजी का मन्दिर से भंवरलाल रैगर की कोठी से उत्तर मुड़कर नगरपालिका की काल्पनिक सीमा को लेते हुए सॉभर झील में तूर महाराज की प्याऊ देवयानी तीर्थ सरोवर से पश्चिम मुड़कर सुनारों की बगीची से शर्मिष्ठा सरोवर से बाए साईड की आबादी को लेते हुए किशन केमिस्ट पुराना रिसोर्ट से चलते हुए देवयानी सॉल्ट फाटक से दक्षिण मुड़कर पुराने किले की आबादी को सम्मिलित करते हुए सॉल्ट रेल लाईन के सहारे चलते हुए सीतासागर फाटक से ब्रह्म समाज गद्वानी गार्डन से नगरपालिका चुंगी तक।
18	18	किला फाटक नम्बर 4 स्कूल से शुरू होकर बाए साईड की आबादी को लेते हुए मालियों का मन्दिर लेत हुए (अवधेश जी का मन्दिर) बडभुंज्या की दुकान टाटी

		की दुकान ईमाम चौक सतु मोटी जी की दुकान गणेश सोनी का मकान माथुरों का मोहल्ले तक दक्षिण में मुड़कर श्याम जी माथुर का मकान चाणक्या भैरू अमरचन्द पारीक का मकान अम्बा लाल जी माथुर का मकान शास्त्री स्कूल लाल कुआ से पूर्व में मुड़कर सीढ़िया उतर कर बाएं साईंड की आबादी सम्मिलित करते हुए सूरजभान जी का मकान शिव मन्दिर से दक्षिण में मुड़कर श्याम जी पत्रकार का मकान कैलाश जी माली का मकान से पूर्व में मुड़कर बाएं साईंड की आबादी सम्मिलित कर प्रभू माली का मकान साल्ट फाटक सारडा कुआ से उत्तर में मुड़कर बाबा साहब की अखाडे की आबादी को लेते हुए किला फाटक 4 नम्बर स्कूल तक।
19	19	सरस्वती मार्ग राधाकिशन सुनार की दुकान (छोटा बाजार) पश्चिम चलते हुए / बालकिशन जी दुकान को सम्मिलित करते हुए डांगरा जी की हवेली जेलर का व बाहर बाएं साईंड की आबादी सम्मिलित करते हुए ग्यारसी लाल जी शर्मा का मकान एसडीएम कोर्ट नगरपालिका छोटू जी छीपा का मकान से दक्षिण में मुड़कर बाबरों की गली की बाएं साईंड की आबादी को लेते हुए रामदेव जी का मकान मस्जिद बिस्ताईयों की सीताराम धोबी का मकान लाल चन्द साध की दुकान गुलाब की प्रजापत का मकान नगरपालिका व थाने की पीछे की आबादी को लेते हुए शम्भु जी जैन का मकान पटवों की गली में चलकर बाएं साईंड की आबादी को लेते हुए रेणु मित्तल के मकान से राधेश्याम जी पचार वाले के मकान से राकेश एक्स-रे के मकान से ओम जी मंत्री के मकान को सम्मिलित करते हुए हनुमान जी जोपट के मकान से अतुल जी गोयल के मकान से त्रीभुवन जी शर्मा के मकान से चलते हुए महेश जी नागा के मकान से पूर्व में मुड़कर तरूण आयुर्वेदिक के मकान से उत्तर की ओर मुड़कर प्रकाश चन्द जी काला के मकान से भोलू प्रजापत के मकान से सत्यनारायण जी शर्मा का मकान सिंघानिया मोहल्ला की आबादी लेते हुए पारासर की गली प्रेमा जी हलवाई का मकान भौलू कुम्हार का मकान से उत्तर दिशा में मुड़कर भंवर लाल बगडावत का मकान लेकर सीढ़िया चढ़कर जैन मन्दिर महावीर जैन का मकान बंसल भवन से उत्तर से मुड़कर अवधेश जी का मकान नन्द बिहारी माथुर का मकान गोविन्द नारायण माथुर का मकान से नीचे उत्तरकर राधा किशन जी की दुकान होते हुए सरस्वती मार्ग तक।
20	20	लोभी जी के अखाडे से रींग डेम के पास चलते हुए पश्चिम दिशा में चलकर बाई साईंड की आबादी को लेते हुए जोगियों के नाले से बसीर ड्राईवर के मकान से इमामुदीन के मकान को लेते हुए पशुशेड शान्ति देवी के मकान से होते हुए मोहन रोडवेज वाले के मकान से रामदेव जी के मन्दिर की आबादी को सम्मिलित कर मालचन्द गुर्जर के मकान से इमामुदीन की दुकान से होते हुए बायी साईंड की आबादी को सम्मिलित करते हुए छोटा बाजार मस्जिद नरेश वाजपयी के मकान को सम्मिलित कर देवयानी रोड चलते हुए लोभी जी के अखाडे तक।
21	21	छोटा बाजार सब्जी मण्डी से शुरू होकर बाएं साईंड की आबादी को लेते हुए नरेश जी त्रिपाठी जी के मकान से हरिसिंह गुर्जर के मकान से कालूराम के मकान से

		होते हुए छोटू चौहान के मकान से आलमपुरा आबादी को सम्मिलित करते हुए कल्लू खान के मकान से अब्दुल मजीद के मकान से रींग डेम के पास चलते हुए आलमपुरा मस्जिद सम्मिलित करते हुए भंवर लाल जी के मकान से निर्माणों के मोहल्ले की मस्जिद चौक से बाईं साईड मुडकर उपर चलते हुए भागचन्द जी बैंक वाले के मकान से शंकर लाल जी पारीक के मकान से मीनाक्षी व्यास के मकान से सूरज जी की गली से उतर पर कन्हैया लाल जी व्यास की दुकान को लेते हुए छोटा बाजार सब्जी मण्डी तक।
22	22	सूरज जी की गली से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए तोतलों की हवेली से गुर्जरों के टीन शेड से जसराज गुर्जर के मकान को लेते हुए नीचे उतरकर फैयाज के मकान को सम्मिलित कर निर्माणों की मस्जिद को लेते हुए सलीम ड्राईवर के मकान से उत्तर मुडकर मिठूखान के मकान को लेते हुए बाये हाथ की आबादी निर्माणों के मोहल्ले को लेते हुए पूर्वियों के मन्दिर को लेते हुए रिंग डेम होते हुए बालाजी के मन्दिर को सम्मिलित कर सीढ़ियाँ चढ़कर कालानियों की गली को लेते हुए महेश्वरी पाकशाला से दक्षिण मुडकर किशन शर्मा के मकान से योगेश शर्मा के मकान से पूर्व दिशा में मुडकर नारायण जी शर्मा हरिराम जी शर्मा के मकान से बालकिशन शर्मा के मकान से विश्वनाथ जी के मकान से सूरज जी के मकान से सोमानियों का मकान लेते हुए पूर्व मुडकर सरकारी दुकानों को लेते हुए कैलाश जी पंडित के मकान से शेषनारायण जी के मकान से घनश्याम छीपा के मकान से द्वारका सोनी के मकान से नीचे उतर कर कैलाश जी नांगला का मकान लेते हुए सूरज जी की गली तक।
23	23	जोशियो की गली से शुरू होकर शिवराज सिंह जी के मकान से विष्णुदत्त से शुरू होकर गोरा शांता से गोपीनाथ जी के मन्दिर से बाये हाथ की आबादी को सम्मिलित करते हुए गोरधन नाई के मकान से सीढ़िया उतरकर मंजूर नजीर के मकान को शामिल करते हुए अम्मु के मकान से मुन्ना कारिगर के मकान से बाये साईड की आबादी को लेते हुए अलकजेंडर के मकान से अब्दुल मजीद के मकान से दक्षिण दिशा में मुडकर रामोतार टांक के मकान से धन्ना गुर्जर के मकान से सीढ़िया चढ़कर सत्यसिंह के मकान से होते हुए राधेश्याम कालानी के मकान से नाथूलाल गटटानी के मकान से सिलाई केन्द्र को सम्मिलित करते हुए सीताराम जी के मकान से पूर्व मुडकर हनुमान प्रसाद की दुकान को लेकर मण्डी की गली को सम्मिलित कर जामामस्जिद से बाये हाथ की सम्पूर्ण आबादी लेते हुए शिवजी की कुटिया से पूरणजी कालानी की दुकान से एडीजे कोर्ट से राधेश्याम सोमानी के मकान से जोशियो की गली तक।
24	24	शहीद पूनम चन्द मार्ग से बरडों की हथाई से शुरू होकर नटवर जी के मन्दिर से मुरली फोटोग्राफर के मकान से घनश्याम सांभरिया के मकान से होते हुए सुधा बाड़ी मस्जिद से शीतला माता का मन्दिर से ओम जी पटवारी का मकान से बालाजी के मन्दिर से भागीरथ जी गुर्जर के मकान से जी एच उस्मानी के मकान से हरि सांखला के मकान से रिंग डेम होते हुए नृसिंग की टाल को सम्मिलित

		करते हुए नानची देवी के मकान से कालू राम सांभरिया के मकान से होते हुए पंचायत खटीकान के पूर्व मुड़कर लखन सिंगलिकर के मकान से डाबों की गली को सम्मिलित करते हुए ओमजी जागीदार की दुकान से बरडों की हथाई से चलकर पूर्व दिशा की ओर माणक सोनी की दुकान से खाई की गली को सम्मिलित करते हुए राधाकिशन दर्जी के मकान से आगे चलकर मदन जी सुनार के मकान से नीचे सीढ़िया उतरकर भैरू जी के मन्दिर से होते हुए नोरतमल स्वामी के मकान से कैलाश जी मांधना के मकान से शुभकरण टांक के मकान से टिनू फदाली के मकान से बरडों की हथाई तक।
25	25	बड़ा बाजार लुहारों की गली से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए बालकिशन गहलोत अशोक कुमार टांक भैरू जी का मन्दिर (रत्या भैरू) मुकेश टेलर खादीम का गेस्ट हाउस छगन लाल सांभरिया का मकान दरगाह शरीफ स्कूल जमाल भिश्ती घासी खां का मकान लंगर खाना नवाब साह यकूब साह का मकान रामप्रसाद सांभरिया अग्रवाल धर्मशाला पुरानी अनाज मंडी की दुकाने बड़ी दरगाह राधेश्यामजी मीठडी वाले की दुकान सार्वजनिक प्याउ से मुड़कर रामनिवास तेली की नमकीन की दुकान बालू तेली की दुकान, ताराचन्द गोयल की दुकान से पूर्व में मुड़कर स्टूडेन्ट बुक डिपो से उत्तर की ओर मुड़कर पुराना तहसील भवन, नेहरू बाल उधान से होते हुए बालिका उच्च माध्यमिक विधालय से दिनेश कालानी सुनार की दुकान से नीचे उतर कर पश्चिम दिशा में द्वारका सोनी की दुकान, लाल चन्द सांभरिया की दुकान, अययूब जी रंगरेज मास्टर के मकान से बड़ा बाजार लुहारों की गली तक।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सांभर लेक

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।